

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग  
हिंदी शिक्षण योजना (परीक्षा स्कंध)  
नई दिल्ली

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक (अंकों में) .....  
(शब्दों में) ..... प्राप्तांक .....

परीक्षा की तारीख ..... परीक्षक के हस्ताक्षर .....

पारंगत परीक्षा  
प्रश्न पत्र-द्वितीय  
..... 2015

समय : 3 घंटे

पूर्णांक : 100

1. नीचे दिए गए शब्दों में से किन्हीं 10 शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए और हिंदी शब्दों से कार्यालयीन हिंदी में वाक्य बनाइए। (15 अंक)

- |                |                  |                    |                |               |
|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 1. Recruitment | 2. Remuneration  | 3. Adjustment      | 4. Renewal     | 5. Evidence   |
| 6. Publicity   | 7. Reimbursement | 8. Transplantation | 9. Procurement | 10. Insolvent |
| 11. Bidder     | 12. Log book     |                    |                |               |

2. निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करें :- (15 अंक)

1. Please circulate, then file.
2. Don't spread rumours.
3. All the apprehensions may be redressed.
4. Arms may be tested regularly.
5. More facilities may be made available.
6. New products are available in the market.
7. Committee may reorganized.
8. Senior most examiners may be deputed for the examination.
9. The new softwares should be Unicode supported.
10. These temporary posts are proposed to be filled.

3. नीचे दी गई स्थितियों में से किन्हीं दो पर यथा निदेशित मसौदे तैयार करें : (20+20 अंक)

(क) कार्यालय में शिकायत प्राप्त हुई है कि श्री ....., अवर श्रेणी लिपिक एक राजनैतिक पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं वह दिन भर कार्यालय समय से गायब रहकर उस पार्टी के कार्य करते रहते हैं। उन्हें कई बार धरना और प्रदर्शन करते हुए देखा गया है जिसके साक्ष्य भी कार्यालय में प्राप्त हुए हैं। मामले की सत्यता की जांच करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए टिप्पणी और कार्यालय ज्ञापन का मसौदा प्रस्तुत करें।

(ख) नीति आयोग, नई दिल्ली की ओर से विभिन्न राज्यों में लंबित योजनाओं के लिए बजट संबंधी आवश्यकताओं और नई योजनाओं के क्रियान्वयन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जानी है। इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया जाना है। बैठक बुलाने संबंधी प्रस्ताव एवं राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्र का मसौदा तैयार कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करें।

(ग) अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री क.ख.ग. का अकस्मात् निधन हो जाने के कारण नए राज्यपाल की नियुक्ति की जानी है, तब तक असम के राज्यपाल को अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने के संबंध में टिप्पणी तैयार करें और साथ ही टिप्पणी के आधार पर जारी की जाने वाली अधिसूचना का मसौदा भी तैयार करें।

4. नीचे दी गई स्थितियों में से किन्हीं दो पर मसौदा तैयार करें। (10+10 अंक)

(क) तीन अनुसंधान सहायकों ने दिनांक 04/04/2015 को अपनी सेवा के 10 वर्ष पूरे कर लिए गए हैं। उन्हें संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत प्रथम अपग्रेडेशन का लाभ देने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया जाना है। इस समिति के गठन संबंधी चर्चा के अनुसार प्रस्ताव एवं समिति के सदस्यों को भेजे जाने वाले अर्ध सरकारी पत्र का मसौदा तैयार करें।

(ख) महाप्रबंधक, ग्राहक श्रेष्ठता शाखा बैंकिंग की तरफ से चैक फार्मों में सुरक्षा संबंधी विशेषताओं के मानकीकरण और संवर्धन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार 'सीटीएस-2010' मानक चैक के परिचालन एवं गैर-सीटीएस चैक रद्द करवाने के लिए ग्राहकों को शाखा से संपर्क करने का अनुरोध करते हुए एक सूचना जारी करने हेतु मसौदा प्रस्तुत करें।

(ग) आपके कार्यालय के एक अधिकारी ने इमरजेंसी में दांत का इलाज कराने के बाद उस पर हुए व्यय रु.2000/- की प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया है। अधिकारी को इस राशि की प्रतिपूर्ति करने के संबंध में विचार करते हुए सहायक स्तर की टिप्पणी लिखकर अपने सुझाव दीजिए।

5. नीचे दिए गए विषयों में से किसी एक पर 10-15 वाक्यों में अपने विचार प्रकट करें। (10 अंक)

(क) हमारी विरासत

(ख) प्राकृतिक आपदा प्रबंधन

(ग) आर्थिक उदारीकरण